Corporate office: Plot No.1, Maruti Joint Venture Complex, Gurugram, Haryana-122015
CIN: L29304DL2019PLC347460
Website: www.ndrauto.com
Phone No.: 9643339870-74

16.11.2022

BSE Limited

Corporate Relationship Department

PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street,

Mumbai – 400 001

Scrip Code: 543214

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block Bandra Kurla

Complex, Bandra (East),

Mumbai – 400 051.

Trading Symbol: NDRAUTO

SUB: Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015-Newspaper Publication of notice for Postal Ballot

Dear Sir/Madam,

In continuation to our letter dated November 15, 2022 regarding the Postal Ballot Notice, please find enclosed advertisement published pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 confirming dispatch of the notice of Postal Ballot to the Members and information on remote e-voting and cut-off date. The advertisement is published in newspaper on 16th November, 2022 viz. Jansatta (Hindi newspaper) and Financial Express (English newspaper).

This information is also available on the website of the Company at: www.ndrauto.com

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

For NDR AUTO COMPONENTS LIMITED

Rajat Bhandari Executive Director and Company Secretary

DIN: 02154950 Encl: As above

UCO BANK गाजियाबाद शाखा (0850), 3-एच/2, नेहरू नगर, राकेश मार्ग, गाजियाबाद, उ०प्र०-२०१००१

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-8(1) के तहत) अधोहस्ताक्षरकर्ता ने युको बैक, एच 2/3, राकेश मार्ग, गाजियाबाद, उ.प्र. शाख के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के (नियम ३) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 22.08.2022 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं: मैसर्स जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, 655 बसंतपुर सैंथली, परगना मुरादनगर, गाजियाबाद, अतूल त्यागी पुत्र सत्यपाल त्यागी, 602 बसंतपुर सैंथली, परगना मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश तथा श्री प्रमोद कुमार, मकान सं. ४/28, सेक्टर–2, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, को सूचना में अंकित, 29.07.2022 के अनुसार रु. 15,57,470/- (रुपये पंद्रह लाख सत्तावन हजार चार सौ सत्तर मात्र) का 29.07.2022 से लागू भावी ब्याज, लागतों, व्ययों तथा इन पर अन्य आकस्मिक शुल्कों के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था चूंकि ऋणकर्ता / गारंटर निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ताओं / गारंटरों को तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 14 नवंबर 2022 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं / गारंटर को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप मे सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन, 29.07.2022 के अनुसार, रु. 15,57,470/- (रुपये पंद्रह लाख सत्तावन हजार चार सौ सत्तर मात्र) की एक राशि तथा 29.07.2022 से इस राशि पर लागू भावी ब्याज, लागतों, व्ययों तथा इन पर हुये / होनेवाले अन्य आकस्मिक शुल्कों हेतु युको बैंक, एच 2/3, राकेश मार्ग, गाजियाबाद, उ.प्र. शाखा के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपित्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

साम्यापूर्ण बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा सं. 602, ग्राम–बसंतपुर में स्थित व श्री अतुल त्यागी पुत्र सत्यपाल त्यागी के नाम पर है। स्टॉक, बही ऋणों तथा चालू परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधन।

चल/अचल संपत्ति का विवरण

तिथिः 14.11.2022 स्थानः गाजियाबाद

Place: New Delhi

Date: 14/11/2022

यको बैंक

प्राधिकृत अधिकारी

NOVA IRON & STEEL LTD Registered Office: Village Dagori, Tehsil - Belha, Distt Bilaspur (Chhattisgarh) Email: rai_nisl2007@yahoo.com, website: www.novaironsteel.com (CIN: L02710CT1989PLC010052) Phone: 07752-285225 Extract from the Un-Audited Financial Results for

Sr. No.	Particulars	Quarter Ending	Year to date figures	3 months ended in the previous year		
		30.09.2022	30.09.2022	30.09.2021		
1.	Total income from operations	15980.53	34668.43	15589.32		
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	26.79	335.67	(1775.92)		
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	26.79	335.67	(1775.92)		
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(74.28)	133.54	(1883.01)		
5.	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and ot- her Comprehensive Income (after tax))	(74.28)	133.54	(1883.01)		
6.	Equity Share Capital	3613.95	3613.95	3613.95		
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(4856.86)	(4856.86)	(6923.25)		
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic & Diluted	(0.21)	0.37	(5.21)		

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the QuarterlyFinancial Results are available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity. (www.bseindia.com and www.novaironsteel.com)

> For and on behalf of Board of Directors For Nova Iron & Steel Ltd. Sd/-(Suraj Prakash Choudhary) Director (DIN 09241286)

रिट्रज मकेन्टाइल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 603, सेठी भवन, 7, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (भारत) CIN: L52110DL1985PLC019805, Ph. No.: 011-25742255 Website: www.ritzmercantile.com, e-mail: ritzmercantilelimited@gmail.com

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही।	समाप्त वर्ष
	30.9.2022	30.6.2022	30.9.2021	31.3.2022
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	(198.10)	-100.616	-100.616	(165.32)
कर से बाद साधारण क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/(हानि)	(198.10)	-100.616	-100.616	(165.32)
कर से बाद साधारण क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(198.10)	-100.616	-100.616	(165.32)
इक्विटी शेयर पूंजी	10500	10500	10500	10500
आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	10141.25	10339.35	10339.35	10073.42
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)				
मूल	(0.19)	- 0.10	- 0.10	(0.16)
तरल	(0.19)	- 0.10	- 0.10	(0.16)
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)				
मूल	(0.19)	- 0.10	- 0.10	(0.16)
तरल	(0.19)	- 0.10	- 0.10	(0.16)

1. उपरोक्त परिणामों को 14.11.2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा तथा अनुमोदन किया गया। सांविधिक ऑडिटर ने उसकी सीमित समीक्षा की है। 2. 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान निवेशक की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हई/तिमाही अवधि के आरंभ अथवा अंत में कोई शिकायत लिम्बत नहीं थी।

3. कम्पनी केवल एक ही खंड में प्रचालन करती है। 4. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि/वर्ष के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत, पुनर्प्रसारित, पुर्नसमृंहीकृत किये गये हैं।

रिट्ज मर्केन्टाइल लि. के लिये

गर्वित सिंघवी

स्थानः नई दिल्ली पर्ण-कालिक निदेशक तिथि: 14.11.2022 **DIN**: 00597757

ओमांश इंटरप्राइजेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः कार्यालय सं. 153, प्रथम तल, वर्द्धमान प्रीमियम मॉल, काली माता के सामने, दीपाली चौक, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 (सीआईएन: L01100DL1974PLC241646), ईमेल: omanshwork@gmail.com, वेबसाइटः www.omanshenterprises.in, फोन नं.: +91 6283364410 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

	×	St		(रु. लाख में
क्र. स.	विवरण	समाप्त 3 महीने 30.9.2022	तद्नुरूपी समाप्त तिमाही 30.9.2021	समाप्त 12 महीने 31.3.2022
1	प्रचालनों से कुल आय	0.00	52.02	359.70
2	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व)	(1.93)	(3.33)	(27.74)
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक मदों के उपरांत)	(1.93)	(3.33)	(27.74)
1	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक मदों के उपरांत)	(1.93)	(3.33)	(27.74)
j	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	(1.93)	(3.33)	(27.74)
3	समता अंश पूंजी	355.000	355.000	355.000
,	आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	0.00	0.00	0.00
3	आय प्रति अंश (रु. 2/— प्रत्येक का) 1. मूल (रु.) :	(0.01)	(0.02)	(0.16)
	2. तरलीकृत (रु.) :	(0.01)	(0.02)	(0.16)

क) उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दर्ज अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है विस्तृत वित्तीय परिणामों तथा इस सारांश की पुनरीक्षा लेखा-परीक्षक समिति द्वारा की गई थी और कंपनी वे निदेशक मंडल द्वारा 14.11.2022 को आयोजित की गई बैठक में इनका अनुमोदन किया गया है। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट (www.omanshenterprises.in) तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

ख) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार सीमित पुनरीक्षा को पूर्ण कर दिया गया है और संबंधित प्रतिवेदन जो बनाया गया है उसका 30 सितम्बर. 2022 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त ''परिणामों एवं टिप्पणियों' पर कोई प्रभाव नहीं है, जिसे विस्तार से बताए जाने की कृते, ओमांश इंटरप्राइजेज लिमिटेड

सतविन्दर सिंह निदेशक

दिनांक: 14.11.2022 स्थानः दिल्ली DIN: 08057553

CAPITAL INDIA

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड CIN: L74899DL1994PLC128577

पंजीकृत कार्यालय: दुसरी मंजिल, डीएलएफ केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001, फोन: 011-4954 6000

वेबसाइट : www.capitalindia.com, ईमेल: secretarial@capitalindia.com 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनअंकेक्षित स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों का विवरण

			स्टैंडअलोन		20	कंसोलिडेटेड	
	800	तिमाही	समाप्त	समाप्त छमाही	तिमाही	समाप्त	समाप्त छमाही
क्र. सं.	विवरण	30 सितंबर 2022	30 सितंबर 2021	30 सितंबर 2022	30 सितंबर 2022	30 सितंबर 2021	30 सितंबर 2022
		(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)
1	संचालन से कुल आय	4,162.99	2,952.34	8,022.34	17,085.74	12,841.19	33,172.89
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले और असाधारण/ असामान्य मदों पर)	594.00	483.71	1,042.03	(1,611.15)	(227.79)	(3,901.73)
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण/ असामान्य मदों के बाद) 594.00 483.71 1,042.03 (1,611.15) कर पक्षात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण/ असामान्य मदों के बाद) 367.43 755.60 (1,794.87)					(227.79)	(3,901.73)
4	असामान्य मदों के बाद)	431.82	367.43	755.60	(1,794.87)	(357.46)	(4,145.91)
5	(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]				(1,794.87)	(362.73)	(4,145.91)
6	प्रदत्त इक्रिटी शेयर पूंजी	7,773.43	7,773.43	7,773.43	7,773.43	7,773.43	7,773.43
7	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	3		7,855.78			2,342.36
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	1	2	42,119.40			51,069.02
9	निवल मूल्य			57,748.61	9 33		61,184.81
10	चुकता ऋण पूंजी/बकाया ऋण	2		55,941.65			69,139.73
11	बकाया प्रतिदेय वरीयता शेयर						100
12	ऋण इक्विटी अनुपात	3		0.97			1.13
13	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य 10 रू- प्रति) 1- बेसीकः	0.55	0.47	0.97	(1.02)	0.07	(2.62)
	2- डायल्यूटिडः	0.55	0.47	0.96	(1.02)	0.07	(2.60)
14	ऋणमुक्त रिजर्व पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	0.0000000000000000000000000000000000000	लागू नहीं	लागू नहीं	
15	ऋणमुक्त रिजर्व ऋणपत्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
16	ऋण लाभ बीमाकृत अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नही
17	ब्याज लाभ बीमाकृत अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नही

क) उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 14 नवम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया।

ख) उपरोक्त सेबी (सूचीबद्ध प्रतिज्ञा पत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52 (4) के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी <u>www.bseindia.com</u> पर और कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com पर उपलब्ध है। ।

> बोर्ड की आज्ञानसार कृते कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड केशव पोरवाल प्रबंध संचालक DIN: 06706341

स्थान: मुंबई

दिनांक: 14 नवम्बर, 2022

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण चंडीगढ पीठ, चंडीगढ के समक्ष

कंपनी याचिका सीपी (सीएए) सं 71/सीएचडी/एचआरवाई/2022 कंपनी आवेदन सीए (सीएए) सं. 36/सीएचडी/एचआरवाई/2022 के साथ संबंधित

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

कंपनीज (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 230-232 और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में

निम्नलिखित के मध्य समामेलन की योजना के मामले में

डीएलएफ गोल्फ रिसॉर्टस लिमिटेड (सीआईएन: U92411HR1998PLC101702); ई-मेलः corporateaffairs@dlf.in; कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, डीएलएफ गेटवे टॉवर, आर ब्लॉक डीएलएफ सिटी, फेस—III,गुरूग्राम—122 002 (हरियाणा) में स्थित है।

याचिकाकर्ता कंपनी सं. 1/अंतरणकर्ता कंपनी सं. 1

डीएलएफ होम्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड (सीआईएनः U70102HR2007 PTC101813); ई-मेलः corporateaffairs@dlf.in; कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, डीएलएफ गेटवे टॉवर, आर ब्लॉक डीएलएफ सिटी, फेस—III,गुरूग्राम—122 002 (हरियाणा) में स्थित है।

याचिकाकर्ता कंपनी सं. 2/अंतरणकर्ता कंपनी सं. 2

डीएलएफ रिक्रिएशनल फाउंडेशन लिमिटेड (सीआईएनः U92490HR2008 PLC101701); ई-मेलः corporateaffairs@dlf.in; कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, डीएलएफ गेटवे टॉवर, आर ब्लॉक डीएलएफ सिटी, फेस–III,गुरूग्राम–122 002 (हरियाणा) में रिथत है।

> याचिकाकर्ता कंपनी सं. 3/अंतरिती कंपनी याचिका की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 230-232 के अधीन डीएलएफ गोल्फ़ रिसॉर्ट्स लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी सं. 1/अंतरणकर्ता कंपनी सं. 1) और डीएलएफ होम्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी सं. 2/अंतरणकर्ता कंपनी सं. 2) का डीएलएफ रिक्रिएशनल फाउंडेशन लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी सं. 3/अंतरिति कंपनी) के साथ समामेलन की योजना की खीकृति के लिए एक याचिका, याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा 15.09.2022 को प्रस्तुत की गई थी जिसकी सुनवाई 30.09.2022 को हुई तथा उक्त याचिका को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्याधिकरण, चंडीगढ़ पीठ ने स्वीकृत किया तथा आदेश की घोषणा की। उक्त याचिका को अब माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिए 09.12.2022 को प्रात: 10.30 बजे निर्धारित किया गया है। उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने का इच्छक कोई भी व्यक्ति अपने नाम और पते के साथ उसके द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने इरादे की सचना याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता को प्रेषित करे, जो कि याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिकवक्ता के पास याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पहले पहुंच जानी चाहिए। जहां कहीं वह याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार अथवा अपने शपथ पत्र की प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रेषित की जाएगी। याचिका की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसकी मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क का भूगतान करने पर प्रदान की जाएगी।

याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए अधिवक्ता #17, सेक्टर -2, चंडीगढ ई-मेलः advocateabhinavsood.legal@gmail.com मोबाईलः +91-9888889965 दिनांकः 15.11.2022

साउथ इण्डियन बैंक अंचल कार्यालयः दिल्ली, पता : 3सरा तल, प्लॉट नं. 21 एवं 21/1, निकट करोल बाग मेट्रो स्टेशन, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, दूरभाष : 011-45128661, ई-मेल : ro1008@sib.co.in, वेबसाइट : www.southindianbank.com

अचल सम्पत्तियों की बिकी

[नियम 8(6) के प्रावधान देखें **]** प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों

के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि **द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड**, नोएडा शाखा के पास बंधक नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने 24.09.2022 को सांकेतिक कब्जा कर लिया है, **द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड**, करोलबाग शाखा के 1) मैसर्स कैटब्रो कॉपोर्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, बी-179, दूसरी मंजिल, शिवालिक, मैविया नगर के पास, रा.रा.क्षे. दिल्ली 110017 इसके अलावा सी-9, ईपीआईपी, कासना साइट V ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश - 201310 इसके अलावा 295, पहली मंजिल, सैनिक विहार पीतमपुरा दक्षिण पश्चिम दिल्ली रा.रा.क्षे. दिल्ली का 110034 (कर्जदार) 2) श्री कृणाल कटारिया पुत्र चंद्र भान कटारिया, फ्लैट नंबर 531, तीसरी मंजिल, टॉवर 'फाइव', गोल्फ विस्टा अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर जीएच-01, सेक्टर-अल्फा 2, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308 (निदेशक/गारंटर) 3) श्री चंद्र भान कटारिया पुत्र महाबीर प्रसाद सैनी, फ्लैट नंबर 531, तीसरी मंजिल, टॉवर 'फाइव', गोल्फ विस्टा अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर जीएच-01, सेक्टर- अल्फा 2, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308 (निदेशक/गारंटर) 4) सुश्री सुमन कटारिया पत्नी चंद्र भान कटारिया, फ्लैट नंबर 531, तीसरी मंजिल, टावर 'फाइव', गोल्फ विस्टा अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर जीएच-01, सेक्टर-अल्फा 2, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश -201308 (जमानती) से बकाया 13.11.2022 तक रु. 9,87,58,325.67/- (रुपये नौ करोड़ सत्तासी लाख अट्टावन हजार तीन सौ पच्चीस एवं सड़सट पैसे मात्र) की वसूली हेतु उसकी बिक्री 20.12.2022 को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो भी है यही है' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 56,00,000.00 (रुपये छप्पन लाख मात्र) तथा जमा धरोहर राशि रु. 5,60,000.00 (रुपये पांच लाख साठ हजार मात्र) होगी

सम्पात क स्वामा का नाम	मसस कटब्रा कापारशन प्राइवट लामटड
सम्पत्ति का विवरण	लीजहोल्ड औद्योगिक भूमि वाले प्लॉट संख्या डी-132 का समस्त भाग
मद −1:	माप ९९९ वर्ग मीटर, भवन का कुल कवर्ड एरिया लगभग ९० वर्ग मीटर
	सभी निर्माण, सुधार, मौजूदा और उससे जुड़े ईजमेंट्री अधिकार के साथ
	यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, ईपीआईपी, साइट V, ग्रेटर नोएडा
	गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित और मैसर्स कैटब्रो कॉपोर्रेश
	प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में, उप पंजीयक कार्यालय - सदर, गौतग
	बुद्ध नगर की बिक्री विलेख संख्या 15786 दिनांक 23/07/2015 रं
	अधिक वर्णित है और सीमाएँ : उत्तर में प्लॉट संख्या डी -133, दक्षिण ग
	प्लॉट संख्या डी-131, पूर्व में 18 मीटर रोड, पश्चिम में प्लॉट नं122

		आधक वाणत ह आर सामाए : उत्तर म प्लाट संख्या डा -133, दाक्षण म प्लॉट संख्या डी-131, पूर्व में 18 मीटर रोड, पश्चिम में प्लॉट नं122
J		9
	आरक्षित मूल्य	रु. 2,03,00,000/- (रुपये दो करोड़ तीन लाख मात्र)
	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	रु. 20,30,000/- (रुपये बीस लाख तीस हजार मात्र)
8	सम्पत्ति के स्वामी	मैसर्स कैटब्रो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
	सम्पत्ति का विवरण मद-2 :	लीजहोल्ड औद्योगिक भूमि वाले भूखंड संख्या सी-9 माप 2272 वर्ग मीटर का समस्त भाग, कुल कवर्ड एरिया लगभग 279 वर्ग मीटर, सभी निर्माण सुधार, मौजूदा और उससे जुड़े ईजमेंट्री अधिकार के साथ यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, ईपीआईपी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुढ़ नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित और मैसर्स कैटब्रो कापोर्रेशन प्राइवेट लिमिटेड (पता संख्या 1) के स्वामित्व में, उप पंजीयक कार्यालय – सदर गौतमबुद्ध नगर एवं लीज डीड संख्या 1877 दिनांक 15/01/2015 के बिक्री विलेख संख्या 788 दिनांक 12/01/2015 में अधिक वर्णित है और सीमाएँ : उत्तर-पूर्व में प्लॉट नंबर सी-2, दक्षिण-पश्चिम में 18 मीटर रोड दक्षिण-पूर्व में प्लॉट नंबर सी-10, उत्तर-पश्चिम में प्लॉट नंबर सी-8।
3	आरक्षित मूल्य	रु. 7,02,00,000/- (रुपये सात करोड़ दो लाख मात्र)
	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	रु. 70,20,000/- (रुपये सत्तर लाख बीस हजार मात्र)
	सम्पत्ति के स्वामी	सुश्री सुमन कटारिया
	सम्पत्ति का विवरण	आवासीय फ्लैट नं. 701, टावर नंबर 1 में 7वीं मंजिल का समस्त भाग
	मद-3 :	माप 1950 वर्गफुट या सुपर एरिया 181.19 वर्ग मीटर, यूनिटेक हाइट्स
		जीएच-05, सेक्टर - काई - 03, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध जिला, उत्तर प्रदेश में स्थित, साथ-साथ सभी निर्माण, सुधार, मौजूदा और उससे सम्बद्ध ईजमेंट्री अधिकार और सुश्री सुमन कटारिया के स्वामित्व में त्रिपक्षीय उप लीज डीड संख्या 19027 दिनांक 07/10/2011 में अधिक वर्णित और 10/10/2011 को उप पंजीयक कार्यालय - सदर, गौतम बुद्ध

	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	रु. 6,38,600/- (रुपये छः लाख अड़तीस हजार छः सौ मात्र)
-		
ļ	सम्पत्ति के स्वामी	श्रीमती सुमन कटारिया और श्री चन्द्र भान कटारिया
	सम्पत्ति का विवरण	लीजहोल्ड आवासीय फ्लैट नं. 531 टावर नं. 5, तीसरी मंजिल का समर
	मद-4:	भाग, छत के अधिकार रहित, माप सुपर एरिया 1987 वर्ग फुट (184.6
		वर्ग मीटर), ''गोल्फ विस्टा अपार्टमेंट्स'', जीएच-01, सेक्टर- अल्फा
		II, ग्रेटर नोएडा, गौतम-बुद्ध जिला, उत्तर प्रदेश में स्थित, साथ-साथ स
		निर्माण, सुधार, मौजूदा और उससे सम्बद्ध ईजमेंट्री अधिकार और श्रीम
		सुमन कटारिया और श्री चंद्र भान कटारिया के स्वामित्व में, अधिकारों व
		्रिपक्षीय सब लीज डीड नंबर 14190 दिनांक 02/05/2014 में अधि
		वर्णित और 02/05/2014 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय-सदर, गौतमबु
		नगर में पंजीकृत और सीमाएँ : उत्तर से प्रवेश, दक्षिण से अन्य फ्लैट, पृ
		में सड़क और पश्चिम में खुला।

पूर्व में खुला, पश्चिम में अन्य टॉवर

आरक्षित मूल्य

नगर में पंजीकृत, सीमाएँ : उत्तर में निमार्णाधीन मॉल, दक्षिण में प्रवेश द्वार

रु. 63,86,000/- (रुपये तिरेसठ लाख छियासी हजार मात्र)

आरक्षित मूल्य रु. 78,18,000/- (रुपये अठहत्तर लाख अठारह हजार मात्र) र. ७,८१,८००/- (रुपये सात लाख इक्यासी हजार आठ सौ मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी)

मद सं. 1, 2 3 तथा 4 की 20/12/2022 को 12:00 बजे दोपहर दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड बिक्री की तिथि तथा स्थान दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय 3सरा तल, प्लॉट नं. 21 एवं 21/1, निकट करोल बाग मेट्रो स्टेशन. पर्स

रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 तिथि: 14.11.2022 ह./- प्राधिकृत अधिकार्र स्थानः दिल्ली

ľ Hero

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड CIN: L35911DL1984PLC017354 पंजीकृत कार्यालयः द ग्रैंड प्लाजा, प्लॉट नंबर २, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज - फेज- ॥, नुई दिल्ली - 110070

DuD-aDa

ई-मेल: secretarialho@heromotocorp.com वेबसाइट: www.heromotocorp.com

फोन: 011-46044220 | फैक्स: 011-46044399

आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ('कंपनी') के मौजूदा शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मूल शेयर प्रमाणपत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं मिले हैं / गुम हो गए हैं, ऐसी सूचना संबंधित शेयरधारकों से इस संबंध में प्राप्त हुई हैं। कंपनी उनके पक्ष में मल शेयर प्रमाणपत्रों (अंकित मूल्य रू. 2/-) के एवज में इप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है :

प्रविद्या केयाकारको अंक्रिय

इप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना

फालिया नं.	का नाम	मूल्य मूल्य	ाडसाटन्काटव नं.	प्रमाणपत्र संख्या	शयरा की संख्या
HML0076233	लोकेश भसीन	रु. 10/-	12555295-12555314 16232298-16232302	143308 238201	20 5
27		ਨ.2/-	46979566-46979815	512762	250
HML0071582	वी के कलकरिया	रु. 2/-	46725456-46726075	512219	620
HML0104882	नीता गोराडिया विजय गोराडिया	रु. 2/-	158961906-158962530	529683	625
HML0104880	हसुमती गोराडिया विजय गोराडिया	₹.2/-	158960156-158960780	529877	625
HML0071761	विजय कृष्ण प्रताप	₹5.2/-	46741881-46742510	512256	630

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा इप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी के 'सचिवीय डिपॉटमेंट' को प्रस्तृत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर या ई-मेल secretarialho@heromotocorp.com पर भेजें। इस बीच, जनता को सदस्यों के ऊपर उल्लेखित शेयर प्रमाणपत्रों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है।

कते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 15.11.2022

धीरज कपूर कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

नीलामी प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक सूचना

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लि. पूर्व नाम शिवालिक मर्केटाइल को आपरेटिव बैंक लि. पंजीकत कार्यालय-501 सिलिकॉन औरम जसोला जिला-सेंटर नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली-110025 तथा प्रधान कार्यालय प्लॉट नंबर-2बी, 6वीं मंजिल टॉवर 3, इंडिया ग्लाइकोल्स, बिल्डिंग सेक्टर-126 नीएडा, उत्तर प्रदेश, पिन0 नंबर-201304 द्वारा समक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण श्री सुधीर कुमार द्वारा दिनांक 22.07.2022 को मध्यस्थ वाद संख्या एस -111 / 2022 श्री सोनु गोयल पुत्र श्री राजकमार गोयल व अन्य में मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम कि धारा 17 के अंतर्गत पारित किये गए आदेश के अनुसार प्रतिवादी कि अचल सम्पति को बैंक द्वारा कब्जा / हिरासत में लिया गया। हिरासत में ली गयी अचल सम्पति को बँक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय करने हेत् सार्वजानिक सूचना को प्रेषित कर रहा है। अचल सम्पति का ब्यौरा निम्न है:-

ग्राम-मकान नं. 40, स्थित बांके बिहारी पूरम, बिसरख रोड, ग्राम- छपरौला परगना व तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, पिन नंबर-20130, में रकबा 120 वर्ग गज यानि कि 100.33, वर्ग मीटर जो कि खसरा नं. 1271 में स्थित है (जिसमें मालिकाना कब्जा सोनू गोयल का है)

नियम व शर्ते

- नीलामी प्रकिया अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 22-11-2022 को स्थान शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक, सी-2/6, नई सडक, शास्त्री नगर, मेरठ में निर्धारित कि गई है।
- 2. सीलबंद बोलियां / प्रस्ताव 22 नवम्बर 2022 को 12:00 बजे -14:00 बजे बैंक के उपर्युक्त शाखा कार्यालय में बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी और प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर प्रस्ताव मूल्य को बढ़ाने के लिए परस्पर बोली में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।
- 3. दिनांक 21-11-2022 को प्रातः 10:00 से 5:00 तक उक्त अचल सम्पति परीक्षण हेत् निर्धारित कि गई है।
- नीलामी प्रक्रिया में प्रस्तुत किया जाने वाला बोली मृल्य, आरक्षित मृल्य 27,00,000 से अधिक होगी। अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मृल्य से कम पर संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी।
- 5. सफल बोलीदाता को बिक्री का 10% (ई.एम.डी.सहित) नीलामी प्रक्रिया के दिन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शाखा मेरठ के पक्ष में डिमांड डाफ्ट द्वारा जमा करना आवश्यक है, जो सम्बंधित शाखा में देय है और बिक्री मूल्य का 25% नीलामी प्रक्रिया के अगले दिन जमा करना आवश्यक है। बिक्री की शेष राशि (65%) सफल बोलीदाता द्वारा मूल्य का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई ई.एम.डी और बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या कोई चूक करता है, तो ई.एम.डी. जमा या 25%, जो भी हो, या जो भी मूल्य जमा कराया जाएगा. बँक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।
- उक्त अचल सम्पति "जो है जैसा है, जैसी स्थित में है, वैसी ही बेची जोयगी" प्रक्रिया पर विक्रय कि जायेगी।
- बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्ते के लिए कृप्या शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बँक, सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट https://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php में दिए गए लिंक को देखें।
- व. निलामी प्रक्रिया कि अधिक जानकारी के लिए, अधिकृत अधिकारी श्री सतेन्द्र सिंह -9599058695 से संपर्क करें।

दिनांक :- 16.11.2022 स्थान:- गाजियाबाद

अभिनव सूद

अधिकृत अधिकारी शिवालिक स्माल फाइनेंस बँक लि.



एनडीआर ऑटो कंपोनेंटस लिमिटेडसी आईएन: L29304DL2019PLC347460

पंजीकृत कार्यालयः लेवल -5, रेगस कैडी कमर्शियल टॉवर, हॉस्पिटैलिटी डिस्टिक्ट एरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली १७०३७ कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर १, मारुति ज्वाइंट वेंचर कॉम्प्लेक्स, गुरुग्राम, हरियाणा-१२२०१५ फ़ोन: +91 9643339870-74 फ़ैक्स: 0124-2341188

ई-मेल: cs@ndrauto.com वेबसाइट: www.ndrauto.com

एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा ११० और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार कंपनियों के साथ पढ़ें(प्रबंधन और प्रशासन) नियम २०१४, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ वे विनियम ४४ के साथ पिठत सामान्य परिपत्र और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और अन्य लागू कानुनों और विनियमों द्वारा जारी अधिसूचनाएं, उक्त नोटिस में निर्धारित संकल्प पर सदस्यों के अनुमोदन के लिए पोस्टल बैलेट नोटिस, १५ नवंबर, २०२२ को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनके ई-मेल पते पंजीकृत हैं शुक्रवार, 11 नवंबर, 2022, कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी। पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाता है।

सदस्य कंपनी की वेबसाइट www.ndrauto.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज www.nseindia.com पर उपलब्ध पोस्टल बैलेट नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। एनएसडीएल की वेबसाइट यानी https://www.evoting.nsdl.com/। पोस्टल बैलेव नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने

के इच्छुक सदस्य cs@ndrauto.com पर ई-मेल भेज सकते हैं। एमसीए परिपत्रों के अनुसार, पोस्टल बैलेट नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा रहा है जिनके नाम राष्ट्रीय प्रतिभृति डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज से प्राप्त सदस्यों/लाभार्थी मालिकों की सूची के रजिस्टर में दिखाई देते हैं। (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') शुक्रवार, 11

नवंबर, 2022 (कट-ऑफ डेट) तक और जिन्होंने कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं। जिन सदस्यों के नाम सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में कट-ऑफ तारीख को दर्ज हैं, उन पर ई-वोटिंग के लिए विचार किया जाएगा। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए लागू परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई-वोटिंग) द्वारा अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग बुधवार, 16 नवंबर, 2022 को सुबह 9.00 बजें (आईएसटी) से शुरू होगी और गुरुवार, 15 दिसंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे तक समाप्त होगी। (आईएसटी)। इसवे बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार संकल्प पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश पोस्टल बैलेट नोटिस का हिस्सा है।जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं

की है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे निम्नलिखित तरीके से पंजीकृत करें: l) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उन्हें एक ई-मेल

beetalrta@gmail.com भेजकर कंपनी/आरटीए के साथ इसे पंजीकृत करना आवश्यक है। ii) डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य. जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसपेंटस के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ संपर्क करना होगा, जिनके साथ वे अपन

डीमैट अकाउंट बनाए रखते हैं। भौतिक मोड, डीमैटरियलाइन्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं उनके द्वारा ई-वोटिंग के तरीके को पोस्टल बैलट नोटिस में प्रदान किया गया है। संकल्प, यदि पोस्टल बैलेट के माध्यम से सदस्यों द्वारा अपेक्षित बहमत के साथ पारित किया जाता है. तो मतदान अवधि की अंतिम तिथि यानी 15 दिसंबर. 2022 को पारित माना जाएगा। पोस्टल बैलेट के परिणाम शनिवार, १७ दिसंबर को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। , २०२२ परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी वे

की रिपोर्ट के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। यानी https://www.evoting.nsdl.com/I निदेशक मंडल ने श्री आर.एस. भाटिया, प्रैक्टिस में कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या: FCS: 2599, CP नंबर 2514) और उनकी अनुपस्थिति में श्री हरदेव सिंह, प्रैक्टिस में कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या: FCS: 6673, CP नंबर 3317) एक संवीक्षक के रूप में जांच करने के लिए मतदान प्रक्रिया, बैलेट पेपर और ई-वोटिंग दोनों निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके

शेयर सूचीबद्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट www.ndrauto.com और एनएसडीएल की वेबसाइट पर स्क्रूटिनाइज़र

ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या रखने वाले सदस्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल को सहायता अनुभाग के तहत देख सकते हैं या सुर्श्री सरिता मोटे से संपर्क कर सकते हैं, या ईमेल भेज सकते हैं evoting@nsdl.co.in या टोल फ्री नंबर 1800 1020990

और 1800 22 44 30 पर सभी कार्य दिवसों में काम के घंटों के दौरान कॉल करें। सदस्य कंपनी के पंजीकृत कार्यालय मे

कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं या cs@ndrauto.com पर ई-मेल भेज सकते हैं। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड के लिए

जगह:गुरुग्राम

दिनांक : १५ नवंबर. २०२२

कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव डीन: 02154950

रजत भंडारी

www.readwhere.com

FINANCIAL EXPRESS

IDFC First Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792

Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031 Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022



APPENDIX IV [Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas the undersigned being the authorised officer of the IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 06.07.2021 calling upon the borrower, co-borrowers and guarantors Subhash Kumar, 2.Geeta Mathura Prasad, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.38,78,815.13/-(Rupees Thirty Eight Lakhs Seventy Eight Thousand Eight Hundred Fifteen And Paise Thirteen Only) as on 22.06.2021 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub - section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 11th day of November 2022.

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) for an amount of Rs.38,78,815.13/-(Rupees Thirty Eight Lakhs Seventy Eight Thousand Eight Hundred Fifteen And Paise Thirteen Only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub – section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable properties.

All The Piece And Parcel Of The Property Consisting Of Property House, Comprised In Khasra No. 386, Khatoni No. 423, Khasra No. 5245(8-2), 5246(0-9), Rakba 8, Bighe 11, Biswe Its 22/3420, Share I.E. 1 Biswa, 2 Biswansi // 55.00 Sq.Yards Situated At Patti Insar, Panipat, Tehsil And District Panipat, Measuring 1 Biswa 2 Biswansi // 55.00 Sq. Yards (Approx), And Bounded As: East: Owner Property. West: Owner Property. North: Rasta, South: Property Of Anil

Place: Panipat. Loan Account No: 26365624 & 34268175.

H

IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)

Authorised Officer

Reserve Price (RP)

₹ 2,26,746/-

₹ 72,29,250/-

₹ 8,62,920/-

₹ 86,292/-

FEDERAL BANK

D-15 PRASHANT VIHAR ROHINI SECTOR-14 DELHI - 110085

that e-auction of the pledged gold ornaments in the below mentioned account/s will be conducted by Federal Bank Ltd. on 14/12/2022 through online portal, https://gold.samil.in. Interested buyers may log on to the auction portal or contact the Bank at D-15 Prashant Vihar Rohini Sector-14 Delhi - 110085 for further information. In case e -auction is not materialised for any reason on the date mentioned above, with respect any or all items of the pledged ornaments, Bank shall be conducting private sale of the items on any subsequent date/s without further notice.

Branch Name	Name of Account	Loan Account No./ (Rupeek ID				
Rohini / Delhi-110085	KUSHAL HOODA	14746100038035 / 2057653				
Rohini / Delhi-110085	SUDESH SAINI	14746100038209 / 2143260				
Rohini / Delhi-110085	LAL BACHAN .	14746800000517 / 2195962				
Rohini / Delhi-110085	SUDEEP RANJAN NAYAK	14746800000566 / 2101609				
Rohini / Delhi-110085	MOHAN BANSAL	14746800000525 / 2196256				
Rohini / Delhi-110085	DINESH VERMA	14746800006829 / 2132650				
Rohini / Delhi-110085	NARENDER PARSAD	14746800000707 / 2199878				
Rohini / Delhi-110085	SWATI CHANANA	14746100039637 / 2273819				
Rohini / Delhi-110085	ROSHAN KUMAR	14746100038472 / 2126920				
Rohini / Delhi-110085	GOVIEND .	14746100037342 / 2181902				
Place: NEW DELH	Sd/- Authorise	ed Officer, For The Federal Bank Ltd.				

VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED

Regd. Off.: 103, Palco House 2162/T-10, Main Patel Road New Delhi West Delhi 110008 E-mail id: csvirtualeducation@gmail.com, Website: www.virtualeducation.co.in CIN: L67120DL1993PLC052256, Ph: 011-41522143

Extract of Un-audited Financial Results for The Quarteraand Half Year Ended September 30, 2022

	2	Quarter End	led	Half Yea	Year Ended	
PARTICULARS	30-Sep-22 Unaudited	30-Jun-22 Unaudited	30-Sep-21 Unaudited	30-Sep-22 Unaudited	30-Sep-21 Unaudited	31-Mar-22 Audited
Total Income from operations	33,98	46.26	26.59	80.24	50.28	161.12
Net Profit/ (Loss) Before Exceptional and Extraordinary Items and Tax	22.35	35.73	4.00	58.17	7.88	53.78
Net Profit/ (Loss) after taxes, minority interest and share of profit/(loss) of associates	22.35	35.73	4.00	58.17	7.88	39.20
Total Comprehensive Income for the period	22.35	35.73	4.00	58.17	7.88	39.20
Paid-up equity share (face value Rs. 1/- each)	4,236.64	4,236.64	4,236.64	4,236.64	4,236.64	4,236.64
Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year		15				18
Earning Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised) A) Basic B) Diluted	0.05	0.008	0.001	0.14	0.002	0.009

1. The above Un-audited Financial Results were, subjected to limited review report by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on November14, 2022. The limited review report of the Statutory Auditors is being filled with the Stock exchange.

The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the guarter and Half year ended September 30, 2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022 along with the limited review report of the Statutory Auditors is available on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.virtualeducation.co.in

For Virtual Global Education Limited

Prasanna Laxmidhar Mohapatra (Director) DIN:09528267

Place: New Delhi

Date: 14.11.2022

ATS HEIGHTS PRIVATE LIMITED Regd. Off.: 711/92, Deepali, Nehru Place, New Delhi – 110019

CIN: U70200DL2010PTC205410; Phone No.: 0120-7111500; Fax No.: 0120-7111550 Email Id.: compliances@atsgreens.com; Website: www.atsgreens.com

ANNEXURE I

Format for publishing financial results in newspapers [Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(Amount in Lakhs)

3		For the Quarter ended	For the Year ended
S. No.	Particulars	30.09.2022	31.03.2022
		Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	22.92	15.20
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(17.90)	(324.44)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(17.90)	(324.44)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.17	(229.99)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1.17	(229.99)
6	Paid up Equity Share Capital	1.00	1.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(2,496.83)	(2,458.95)
8	Securities Premium Account	-	-
9	Net worth	(2,495.83)	(2,457.95)
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	215,204.20	217,454.40
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-
12	Debt Equity Ratio*	(86.23)	(88.47)
88.070 T	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -		
13	1. Basic:	11.65	(2,299.99)
<u> </u>	2. Diluted:	11.65	(2,299.99)
14	Capital Redemption Reserve	-	-
15	Debenture Redemption Reserve	- "	-
16	Debt Service Coverage Ratio	(0.0004)	(0.005)
17	Interest Service Coverage Ratio	(0.005)	(0.022)

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.

b) For the other line items referred in the Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s).

c) #-Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

Getamber Anand

Lovely Pathak

SD/-

Director

Date: 14-11-2022

Place: Noida

SD/-Director Date:14-11-2022 Place: Noida

IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Home Finance Limited and Capital First Limited).

Registered Office: KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 600031. TEL: +91 44 4564 4000 | FAX: +91 44 4564 4022. AUTHORIZED OFFICER - Mohini Jagga CONTACT NUMBER- 8447442293- E-MAIL: mohini.jagga@idfcbank.com



CIN: L65110TN2014PLC097792

Interest (Enforcement) Rules, 2002

09.04.2021



APPENDIX- IV-A



Email ID:

-mohini,jagga

@idfcbank.com

[See proviso to rule 8 (6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Security and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Co-Borrower (s) as per column (ii) that the below described immovable properties as per column (iii) mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of erstwhile Capital First Home Finance Limited and Capital First Limited now IDFC FIRST Bank Limited formerly known as IDFC Bank Ltd, will

be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is"17.12.2022, for the recovery of amount due from Borrower (s) and Co-Borrower (s) as per column (i), due to IDFC FIRST Bank Limited formerly know IDFC Bank Ltd(erstwhile Capital First Home Finance Limited and Capital First Limited). For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in IDFC FIRST Bank website i.e. https://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC. AUCTION DETAILS

GHAZIABAD, UTTAR PRADESH AND BOUNDED AS UNDER

EAST- HOUSE NO. 1069, WEST- HOUSE NO. 1067, NORTH -

S. NO	Demand Notice Date and Amount	Loan	Name Borrower (s) and Co- Borrower (s)	PROPERTY ADDRESS	Branch Office	State	Reserve Price Amount	EMD Amount	Last Date & Time of Submission of EMD and Documents (online) On/before	Date and Time. of Auction	Date and Time. of Inspection of property	Authorised Officer details
1	INR 35,58,987.61 as on 15.02.2022	13573209	MOHD AKRAM	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF UPPER FIRST FLOOR WITHOUT ROOF RIGHTS BUILT ON EAST-SIDE PORTION, PART OF FREE HOLD PROPERTY NO.S-221/106, AREA MEASRUING 100 SQ. YARDS., OUT OF TOTAL LAND AREA MEASURING 200 SQ. YARDS., PART OF RECT.NO.23, KILLA NO.20, SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE KHYALA, DELHI STATE, DELHI COLONY KNOWN AS VISHNU GARDEN NO.4, NEW DELHI-110018, AND BOUNDED AS: EAST: ROAD, WEST: REMAINING PORTION OF PROPERTY. NO. S-221/106, NORTH: OTHER'S PROPERTY SOUTH: OTHER'S PROPERTY		DELHI	INR 4500000/-	INR 450000/-	16.12.2022 Up to 5.00 PM	17.12.2022 11.00 AM to 1.00 PM	09.12.2022 11.00 AM to 4.00 PM	Mohini Jagga Mobile number: -8447442293, Email ID: -mohini.jagga @idfcbank.com
2	INR 1367797.78/- 85 on	19658781	ANIL ARORA	ALL THAT PIECE AND PARCEL HOUSE NO. 1068, ADMEASURING AREA 38.268 SQ. MTRS. HAVING COVERED AREA OF 23.093 SQ. MTRS. SITUATED AT SECTOR – 4, G M P, VIVEKANAND NAGAR,	GHAZIABAD	UTTAR PRADESH	INR 2000000/-	INR 200000/-	16.12.2022 Up to 5.00 PM	17.12.2022 11.00 AM to 1.00 PM	09.12.2022 11.00 AM to 4.00 PM	Mohini Jagga Mobile number: -8447442293,

ROAD 30 FT. WIDE SOUTH-RAILWAY LINE Disclaimer: Please note that the said notice is issued for sale of immovable property only and IDFC FIRST Bank Limited has no right to sale the movable assets, if any, present at the immovable property. Authorised Officer Date: 14.11.2022 IDFC FIRST Bank Limited formerly know IDFC Bank Ltd Place: DELHI (erstwhile Capital First Home Finance Limited and Capital First Limited).

New Delhi

financialexp.epan

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

PUBLIC NOTICE FOR GOLD AUCTION Notice is hereby given to the public in general and the account holders in particular

Branch Name	Name of Account	Loan Account No./ (Rupeek ID)			
Rohini / Delhi-110085	KUSHAL HOODA	14746100038035 / 2057653			
Rohini / Delhi-110085	SUDESH SAINI	14746100038209 / 2143260			
Rohini / Delhi-110085	LAL BACHAN .	14746800000517 / 2195962			
Rohini / Delhi-110085	SUDEEP RANJAN NAYAK	14746800000566 / 2101609			
Rohini / Delhi-110085	MOHAN BANSAL	14746800000525 / 2196256			
Rohini / Delhi-110085	DINESH VERMA	14746800006829 / 2132650			
Rohini / Delhi-110085	NARENDER PARSAD	14746800000707 / 2199878			
Rohini / Delhi-110085	SWATI CHANANA	14746100039637 / 2273819			
Rohini / Delhi-110085	ROSHAN KUMAR	14746100038472 / 2126920			
Rohini / Delhi-110085	GOVIEND .	14746100037342 / 2181902			
Place: NEW DELHI	Sd/- Authorised Officer, For The Federal Bank Ltd.				

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED Registered Office: No 27A. Developed Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600032. Tamil Nadu. Branch Office: 418, 4th Floor, Pearl Omaxe Tower-2, Netaji Subhash Place, Pitampura Delhi 110034 Contact: Authorized Officer: Mr. Ashutosh Kumar, Email: ashutosh.kumar@hindujahousingfinance.com, Mobile No.: 9870303707

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Co-Borrower(s) that pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of Hinduja Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property, as described hereunder, to be sold on, as 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis', Particulars of which are given below:-

Date & Time of Auction: 20-12-2022 from 11:00 hrs. to 14:00 hrs.

Sr. No.	A VEST LANG PACKURAGE PROPERTY TO A VISION OF THE PACKURAGE PROPERTY O	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property	Earnest Money Deposit (EMD) (10% of RP)
1	(Loan Account No.	Hundred and Ninety	mts., Sonu Vihar, Loni, Ghaziabad.	₹ 33,86,368/-
	522, situated Colony Shanu Vihar, Vill- Loni Pargana Loni, Tehsil and District Ghaziabad-UP <u>Also at:</u> House No. 42, Sanu Vihar, Vill-Loni Pargana,			₹ 3,38,636/-
	2. Poonam, House No. 1, Ansar Vihar, Loni Dehat Ghaziabad, Uttar Pradesh -201102		.s	
2	(Loan Account No.	Demand Notice date: 09.10.2021 Rs. 66,41,682/- (Rs Sixty Six Lakhs Forty One Thousand Six Hundred and Eighty Two) as on 07.10.2021	Built up property bearing No. RZ-D/14, built on Plot No. 12. Land measuring 100 sq. yds. Consisting double storey with roof rights out of Khasra No. 76/4, situated in Village Palam, colony known as Mahavir Vihar, Delhi-110045, Bounded as: North - Road 20 ft. wide, South - Others property, East - Road 20 ft. wide, West - Plot No. 13	₹ 85,90,950/-
	Malviya, both at: RZ-D-14, Mahavir Vihar, Sector-1, Dwarka Palam, Delhi- 110045			₹ 8,59,095/-
3	(Loan Account No. DL/DEL/DLHI/A000000182)	Demand Notice date: 11.09.2020	All that piece and parcel of property	₹ 9,94,500/-
	Mr. Jai Chand Agrawal & Rekha Aggarwal both at: Plot No. E-43, Khasra No. 265, New Anand Vihar Colony, Saddulabad, Loni, Uttar Pradesh - 201102 Also at: House No. C-92B, Gali No. 7, Kanti Nagar Extn. Krishna Nagar, New Delhi-110051	Rs. 7,25,894/- (Rs Seven Lakhs Twenty- Five Thousand Eight Hundred and Ninety Four only) as on	bearing residential plot no. E-43, area measuring 25 sq. yds. out of Khasra No. 265 situated at New Anand Vihar, Saddulabad, Pargana Loni, Tehsil & Distt Ghaziabad, Bounded as : East - Others Plot, West - Road 12 ft wide, North-Others Plot, South - Remaining portion of the plot	₹ 99,450/-
4	(Loan Account No. DL/DEL/DLHI/A000000018)	Demand Notice date: 07.08.2021	Residential Property Plot no. 9, 1st Floor, out of Khasra No.8-M, situated in	₹ 22,67,460/-
	DEDELIDERII/A00000010)	07.00.2021	r ioor, out or renasta No.o-in, situated in	T 0 00 740

Mr. Jasbeer 2. Mrs. Rajesh Devi, Rs. 29,65,451/- (Rs the revenue of Uttar Pradesh both at: House No. 9, Khanpur Jabti, Twenty-Nine Lakhs measuring 208 Sq. Yard, Gram Pani Tanki, Metro, Ghaziabad, Uttar Sixty-Five Thousand Khanpur, JabtiPargana& tehsil Loni, District Ghaziabad, Uttar Pradesh, Four Hundred and Fifty-Pradesh, India-201102 Bounded as: East - Plot No. 10, Subhash, One) as on 31.07.2021 Plot. South - Plot No. 11 Demand Notice date: (Loan Account No.

DL/DEL/DLHI/A000000266) 02.09.2020 Ms. Priti & Mr. Jay Singh, both at: G- Rs. 31,65,220/- (Rs 295, Main Gali No. 7/29, West Karawal Thirty-One Lakhs Sixty-

All that piece and parcel of property ₹ 21,53,050/bearing F. No. UGF-103 (Rear RHS/ ₹ 2,15,305/-Southern-Western Portion), area admeasuring 850 sq. ft., Plot No. A-105, Nagar, Delhi, India-110094 Also at: F. Five Thousand Two out of Khasra No. 1304, Hayat Enclave, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Bounded as : East - Plot No. 106, West Plot No. 104, North - 60 Feet Wide road, South - Others Property

West - Rasta 12 feet wide, North - Other

No. UGF-103, (Rear RHS/Southern- hundred and Twenty) as Western portion), P. No. A-105, Hayat on 31.08.2020 Enclave, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201102, Also at: R.K Dental, Main Kaali Ghata Road, Karawal Nagar, Delhi-110094 (Loan Account No. DL/DEL/DLHI/A000000281)

 Ms. Rajwati Malik, 2. Mr. Virendra Singh

(Loan Account No.

DL/DEL/DLHI/A000000124)

Works, 60 Foot Road, Sant Nagar,

Radhika Market, Loni, Ghaziabad-

Mrs. Seema Devi. Plot No. 33. Sant.

Nagar, Loni, Ghaziabad-210102 Also

at: Flat No. SF-02, Plot no. 16, Khasra

no. 355, Sant Nagar, Loni, Ghaziabad-

(Loan Account No.

DL/DEL/DLHI/A000000065)

C3/2, DLF Ankur Vihar, Loni,

Engineering, Shop No. A-22, Sant Nagar, Loni, Ghaziabad-201102

2. Mr. Nahid Akhtar, Flat No. F-2, H.

No. C3/2, DLF Ankur Vihar, Loni, Ghaziabad-201102 Also at: S.F.03, Khasra No. 355, Sant Nagar, Loni,

Ghaziabad-201102

Ghaziabad-201102 Also at: SK Only) as on 31.08.2020

201102

201102

Demand Notice date: 17.08.2021 Rs. 43,19,599/- (Rs Forty-Three Lakhs Nineteen Thousand both at: RZ-G-48 A, Gali no. 2, West Five hundred and SagarPur, Delhi-110046 Ninety-Nine Only) as on 12.08.2021

The Easter side Ground Floor area

47.3715 Sq. mtrs. & Entire First Floor ₹ 7,22,925/measuring 96.1515 sq. mtrs. With all roof terrace rights, built up measuring 115 sayds, out of property RZ-G-48-A khasra no. 22/18/1 situated in the area of village Dabri, Delhi, Colony Known as Sagarpur Delhi-110046. Bounded as: East - Gali, West - Remaining portion of Jitender Singh Malik & other property, North - Road, South - Other's Property

Demand Notice date: All that piece and parcel of property 11.09.2020 bearing Flat no. SF-02, L.I.G front side, second floor with roof rights, area admeasuring 50 sq. yds. Plot no. 16, Khasra no.355, Sant Nagar, Loni, Ghaziabad, Bounded as : East-

 Mr. Ram, Flat No. SF-02, Plot no. Rs. 11,49,614/- (Rs. Khasra no. 355, Sant Nagar, Loni, Eleven Lakhs Forty-Ghaziabad-201102 Also at: Plot No. Nine Thousand Six Sant Nagar, Loni, Ghaziabad- Hundred and Fourteen 210102 Also at: M/s Diksha Welding Only) as on 31.08.2020 South: School

Remaining part of the Plot, West - Plot Digar Malik, North - Road 20 Ft Wide,

Demand Notice date: All that piece and parcel of property bearing SF-03, L.I.G front side, second 24.10.2020 floor with roof rights, Plot no. 16, Sameer Khan, Flat No. F-2, H. No. Rs. 11.91.531/- (Rs.

Khasra no.355 min, Sant Nagar Colony, Eleven Lakhs Ninety-Sadullabad, Loni, Ghaziabad. Ghaziabad-201102 Also at: S.F.03, One Thousand Five

₹ 8.38.950/-Khasra No. 355, Sant Nagar, Loni, Hundred and Thirty One

₹ 83,895/-

4:00 PM. at the Regional Office 418, 4th Floor, Pearl Omaxe Tower-II, Netaji Subhsh Place, Pitam Pura, DELHI-110034. Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD. Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 20.12.2022 at the above-mentioned regional office address at 11 AM. The

tender will be opened in the presence of the Authorized Officer Date of Inspection of the Immovable Property is on 08.12.2022 between 11 AM to 5 PM. Further interest will be charged as applicable, as per the Loan Agreement on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due and payable till its realization.

The notice is hereby given to the Borrower/s and Co-Borrower/s to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms and

Last Date of Submission of Sealed Bid/Offer in the prescribed tender forms along with EMD and KYC is 19.12.2022 between 10:00 AM to

Conditions of Sale. The detail terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available at the above-mentioned Regional office. The immovable property will be sold to the highest bidder. However, the Authorized Officer reserves the absolute discretion to allow inter

se bidding, if deemed necessary. The Property as mentioned will not be sold below Reserve Price. HHFL (HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED) is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The Property shall be auctioned on 'As Is Where Is Basis', 'As Is What Is Basis' and 'Whatever Is There Is Basis'

The Total Loan Outstanding amount is not the loan foreclosure amount. All other charges (if any) shall be calculated at the time of closure The Demand Draft should be made in favor of "HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED" payable at Delhi.

For further details, contact the Authorized Officer, at the abovementioned Office address. Dated: 15-11-2022, Place: New Delhi Mr. Ashutosh Kumar. Authorised Officer, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Dated: 16.11.2022 Rohini / New Delhi Branch

NDR AUTO COMPONENTS LIMITED

CIN: L29304DL2019PLC347460

Regd. Office: Level-5, Regus Caddie Commercial Tower,

Hospitality District Aerocity, IGI Airport, New Delhi 110037 Corporate office: Plot No.1, Maruti Joint Venture Complex, Gurugram, Haryana-122015 Phones: +91 9643339870-74 Fax: 0124-2341188 **E-mail:** cs@ndrauto.com **Website:** www.ndrauto.com

Members of NDR Auto Components Limited are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular and Notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs and other applicable laws and regulations, the Postal Ballot Notice seeking the approval of the Members on the resolution set out in the said Notice, has been sent electronically by National Securities Depository Limited ('NSDL') on November 15, 2022 to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participants as on Friday, November 11, 2022, the cut-off date. The approval of Members is sought for the business set out in the Postal Ballot Notice by way of voting by electronic means.

Members can download the Postal Ballot Notice available on the website of the Company at www.ndrauto.com, website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchanges at www.nseindia.com and on the website of NSDL i.e., https://www.evoting.nsdl.com/. The documents mentioned in the Postal Ballot Notice are available for inspection electronically and Members seeking to inspect such documents can send e-mail to cs@ndrauto.com. In accordance with the MCA circulars, the Postal Ballot Notice is being sent only in electronic

form to Members whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from the National Securities Depository Limited ('NSDL') and Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') as on Friday, November 11, 2022 (cut-off date) and who have registered their e-mail addresses with the Company/Depositories. Member(s) whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the cut-off date will be considered for e-voting. A person who is not a Member as on the cut-

off date should treat this Notice for information purpose only. In accordance with the applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is providing to its Members the facility to exercise their right to vote only by electronic means (e-voting). The Company has engaged the services of NSDL, to provide e-voting facility. The e-voting shall commence from Wednesday, November 16, 2022 from 9.00 a.m. (IST) and shall end on Thursday, December 15, 2022 till 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on resolution is cast by Member, he/she shall be not allowed to change it subsequently. The detailed instructions for e-voting forms part

Members who have not registered their email ID are requested to register the same in the Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address are required to register the same with the Company/RTA by sending an e-mail

Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered their email address with their Depositary Participants are required to get in touch with their Depository Participants with whom they maintain their demat account. The manner of e-voting by Members holding shares in physical mode, dematerialized mode

and those who have not registered their e-mail addresses is provided in the Postal Ballot

The resolution, if passed with requisite majority by the Members through Postal Ballot shall be deemed to be passed on the last date of the voting period i.e. December 15, 2022. The results of the Postal Ballot will be announced on or before Saturday, December 17, 2022. The results will also be displayed at the Registered Office of the Company, intimated to the Stock Exchange where the Company's shares are listed and displayed along with the Scrutinizer's report on the Company's website www.ndrauto.com and on the website of NSDL i.e. https://www.evoting.nsdl.com/.

The Board of Directors has appointed Mr. R.S. Bhatia, Company Secretary in Practice (Membership No. FCS: 2599, CP No.2514), and failing him Mr. Hardev Singh, Company Secretary in Practice (Membership No FCS: 6673, CP No. 3317) as a Scrutinizer to scrutinize the voting process, both ballot paper and e-voting, in a fair and transparent manner.

Members having any query or issues regarding e-voting may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or contact Ms. Sarita Mote, or send an email to evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.1800 1020990 and 1800 22 44 30 during working hours on all working days. Members may also write to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or can send e-mail at cs@ndrauto.com.

For NDR Auto Components Limited

Rajat Bhandari Place: Gurugram **Executive Director and Company Secretary Date : November 15, 2022** DIN: 02154950